

Unit → 5. Ratio Analysis

1. संचालन निष्पादन का सर्वश्रेष्ठ मापन उस प्रत्याच-दर से किया जाता है, जो Operating performance is best measured by the rate of return.

- (a) Total assets (कुल सम्पत्ति पर हो)
- (b) Fixed assets (स्थायी सम्पत्ति पर हो)
- (c) Shareholder's equity (अंशधारी-इक्विटी पर हो)

सिद्ध → (a) कुल सम्पत्ति पर हो

2. मूल्य - अर्जन अनुपात अर्थपूर्ण होता है:

Price-earning ratio is useful to:

- (a) Short-term creditors (अल्पकालीन लेनदारों के लिए)
- (b) Investors in shares (अंशों में निवेशकों के लिए)
- (c) Debentureholders (देबेंचरधारियों के लिए)

सिद्ध → (b) - अंशों में निवेशकों के लिए

3. चल - अनुपात को कमी - कमी कहते हैं:

Current ratio is sometimes referred to as:

- (a) Working capital ratio (कार्यशील पूँजी अनुपात)
- (b) Solvency ratio (शोधनक्षमता अनुपात)
- (c) Financial ratio (वित्तीय अनुपात)

सिद्ध → (a) कार्यशील पूँजी अनुपात

4. जब ऋणपत्र व प्रवाधिकार अंशों की तुलना में सम अंशपूँजी अधिक होती है, तो पूँजी संरचना को कहते हैं:

When the equity capital exceeds in comparison with debentures and preference shares, the capital structure is referred to:

- (a) High geared (उच्च दंतीकृत)
- (b) Low geared (नीचा दंतीकृत)
- (c) Evenly geared (समान दंतीकृत)

सिद्ध → (b) नीचा दंतीकृत

5. एक नीचा स्क्रॉल आवर्त सूचक है:

A low stock turnover indicates:

- (a) Over investment in stock (स्क्रॉल में अतिविनिमोग का)
- (b) Monopoly situation (एकाधिकार की स्थिति)
- (c) Solvency situation (शोधन स्थिति)

सिद्ध → (a) स्क्रॉल में अतिविनिमोग का

6. एक नीचा स्वामित्व अनुपात सूचक है:

A low proprietary ratio indicates:

- (a) Over trading (अति-व्यापार का)
- (b) Under trading (अल्प-व्यापार का)
- (c) None of these (इनमें से कोई नहीं)

सिद्ध → (a) अति-व्यापार का

Q7 पुस्तकीय ऋणों से वसूली :

Collections from book debts:

(a) Increases current ratio (b) Decrease current ratio
(चल अनुपात को बड़ा देती है) (चल अनुपात को घटा देती है)

(c) No net effect on current ratio
(चल अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं डालती है)

Ans → (c) चल अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं डालती है

Q8 एक नीचा चल अनुपात का अर्थ होता है:

A low current ratio may signify:

(a) Working capital adequacy (b) Shortage of working capital
(कार्यशील पूँजी की पर्याप्तता) (कार्यशील पूँजी की कमी)

(c) Optimum working capital
(अनुकूलतम कार्यशील पूँजी)

Ans → (b) कार्यशील पूँजी की कमी

Q9 निरपादन अनुपात प्रबंध को सहायता देते हैं:

Activity ratios help management in:

(a) Managing the resources (b) Planning the finance
(संसाधनों के प्रबंध में) (वित्त के नियोजन में)

(c) Evaluating the performance
निरपादन के मूल्यांकन में

Ans → (c) निरपादन के मूल्यांकन में

Q10 दीर्घकालीन शोषण - हमला इंगित होती है:

Long-term solvency is indicated by:

(a) Liquid ratio (b) Debt-equity ratio (c) Capital-gearing ratio
तरल अनुपात द्वारा ऋण-इक्विटी द्वारा पूँजी मितान अनुपात द्वारा

Ans → (b) ऋण-इक्विटी द्वारा

Q11 किन अनुपातों को सामान्यतः प्रतिशत में प्रकट करते हैं:

which ratios are commonly expressed in percentage?

(a) Activity ratios (b) Profitability ratios (c) Financial position ratios
(निरपादन अनुपात) (लाभदायकता अनुपात) (वित्तीय स्थिति अनुपात)

Ans → (b) लाभदायकता अनुपात

Q12 अनुपात, जो सामान्यतः गुण (Times) में निकाले जाते हैं, होते हैं:

Ratios, which are usually calculated in times are:

(a) Activity ratios (निरपादन अनुपात) (b) Profitability ratios (लाभदायकता) (c) None of these

Ans → (a) निरपादन अनुपात

(13) सकल लाभ अनुपात होता है:

Gross profit ratio is ratio of:

(a) Gross profit to cost of sales (सकल लाभ का शुद्ध बिक्री की लागत)

(b) Gross profit to net sales (सकल लाभ का शुद्ध बिक्री कर)

(c) Gross profit to gross sales (सकल लाभ का सकल बिक्री कर)

सिध → (b) - सकल लाभ का शुद्ध बिक्री कर

(14) शुद्ध लाभ का अनुपात होता है:

Net profit ratio is the ratio of:

(a) Net operating profit to net sales (शुद्ध संचालन लाभ का शुद्ध बिक्री कर)

(b) Net profit after tax to net sales (कर के बाद शुद्ध लाभ का शुद्ध बिक्री कर)

(c) Net profit to capital (शुद्ध लाभ का पूंजी कर)

सिध → (a) → शुद्ध संचालन लाभ का शुद्ध बिक्री कर

(15) लगायी गयी पूंजी बराबर होती है:

Capital employed is equal to:

(a) Total assets (कुल सम्पत्ति)

(b) Total assets - Total liabilities (कुल सम्पत्ति - कुल दायित्व के)

(c) Fixed assets - Working capital (स्थायी सम्पत्ति - कार्मिकीय पूंजी)

सिध → (c) ~~कुल~~ स्थायी सम्पत्ति - कार्मिकीय पूंजी

16. विनियोग पर प्रत्यक्ष अनुपात होता है:

Return on investment is ratio between:

(a) Net profit and capital employed (शुद्ध लाभ व लगायी गयी पूंजी के बीच)

(b) Investment and profit (विनियोग व लाभ के बीच)

(c) Turnover and capital employed (आवर्तन व लगायी गयी पूंजी के बीच)

सिध → (a) - शुद्ध लाभ व लगायी गयी पूंजी के बीच

(17) "अनुपात जितना ही ऊँचा होता है, उतना ही अनुकूल होता है" यह लागू नहीं होता है:

"Higher the ratio, the more favourable it is," this does not apply to:

(a) Operating ratio (संचालन अनुपात पर)

(b) Stock turnover (स्वल्प आवर्तन पर)

(c) Net profit ratio (शुद्ध लाभ अनुपात पर)

सिध → (a) - संचालन अनुपात पर